

तुरंत रिलीज के लिए

## निवासियों को सिटी के रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान के सार्वजनिक जानकारी सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 सितम्बर, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, निवासियों को वीरवार, 1 अक्टूबर को शाम 6:30 से रात 8 बजे तक, अपने पहले रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान (Riverwalk Area Urban Design Master Plan) के सार्वजनिक सेशन (Public Information Session) में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करती है। निवासियों के पास, स्टाफ और मशिवरा देने वाली टीम से प्रोजेक्ट के बारे में और जानने व सुझाव प्रदान करने का अवसर होगा।

सेशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए मीटिंग के दिन, लाइव जाने के लिए जुड़ने हेतु [www.brampton.ca/riverwalk](http://www.brampton.ca/riverwalk) पर लिंक दिया जाएगा।

### रिवरवॉक और रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान के बारे में

डाउनटाउन ब्रैम्पटन, एटोबीको क्रीक (Etobicoke Creek) की बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन के अंदर स्थित है। खतरे संबंधी प्रबंधन के लिए प्रांत की नीतियों ने अब तक, विकास के प्रकार और मात्रा को सीमित किया है, जो आज वहां हो सकता है। रिवरवॉक, बाढ़ के जोखिमों को दूर करने और एक नई, खुली शहरी जगह बनाने के लिए दो-भागों वाला समाधान है। यह ब्रैम्पटन के डाउनटाउन को – दुबारा शक्तिशाली बनाने और इसे स्थिर, स्वस्थ व लचीला बनाने में मदद करेगा।

रिवरवॉक, दुबारा बनाए गए एटोबीको क्रीक से लेकर क्षेत्र तक विस्तार करता है। यह क्षेत्र एटोबीको क्रीक वैली कॉरिडोर और ट्रेल सिस्टम से जुड़ी, पब्लिक जगहों और पार्कों से घिरा हुआ है। इससे डाउनटाउन में, 23,000 से अधिक नौकरियां पैदा करते हुए और जी.डी.पी. (GDP) पर \$1.4 बिलियन का प्रभाव डालते हुए, 3.6 मिलियन वर्ग फुट की रिहायशी, कमर्शियल और रिटेल जगह खुलने की संभावना है।

रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान, एक खुली जगह (ओपन स्पेस) का मास्टर प्लान है, जो बाढ़ संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट, वैली के साथ-साथ खुली जगह संबंधी सिस्टम, सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के एकीकरण, वातावरण और आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों और प्रोग्रामिंग, रिवरवॉक के लिए संपूर्ण दृष्टिकोण को कार्यरूप देने के लिए धारणाएं विकसित करेगा।

### हवाले

“रिवरवॉक, ब्रैम्पटन के परिवर्तनशील प्रोजेक्ट है, जो हमारे डाउनटाउन की क्षमता को खोलने और स्थिर ग्रीन सिटी विकसित करना जारी रखने में हमारी मदद करेगा। मैं निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे रिवरवॉक प्रोजेक्ट और रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान के बारे में और जानने तथा इस रोमांचक पहलकदमी के बारे में अपने सुझाव देने के लिए, ऑनलाइन सार्वजनिक जानकारी सेशन में शामिल हों।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“रिवरवॉक प्रोजेक्ट, सभी ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट यह सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाएगा कि डाउनटाउन ब्रैम्पटन, उन सभी लोगों के लिए स्थिर, स्वस्थ और लचीला व आनंद लेने वाला है, जो क्षेत्र में रहते, काम करते और आते हैं। मैं निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान के सार्वजनिक जानकारी सेशन में हिस्सा लें, इस बारे में और जानें और अपने सुझाव प्रदान करें।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“रिवरवॉक प्रोजेक्ट ब्रैम्पटन में कई काम करेगा, जिनमें शामिल हैं, बाढ़ के जोखिम को कम करना, विकास करना और नौकरियां पैदा करना और सभी के आनंद लेने के लिए डाउनटाउन की सार्वजनिक जगह में सुधार करना। रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान का सार्वजनिक जानकारी सेशन, निवासियों को इस परिवर्तनशील प्रोजेक्ट के बारे में और जानने और क्षेत्र के लिए अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान को बेहतर बनाने का अवसर देगा।”

- *पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हम जो भी काम करते हैं, उसमें सामुदायिक भागीदारी जरूरी है और कोविड-19 महामारी के दौरान, स्टाफ उस ढंग से हमारे निवासियों से सुझाव लेने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उनके स्वास्थ्य और तंदरुस्ती में वृद्धि करता हो। रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान का सार्वजनिक सेशन, निवासियों को रिवरवॉक प्रोजेक्ट और रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान के बारे में और जानने तथा अपने सुझाव देने का सुरक्षित अवसर प्रदान करेगा।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)